

- क. जीवन बीमा संविदाएं क्षतिपूर्ति की संविदाएं होती हैं जबकि सामान्य बीमा में आश्वस्त राशि देय होती है।
ख. जीवन बीमा मूल्य आधारित करार है जबकि सामान्य बीमा क्षतिपूर्ति संविदाएं होती हैं।
 ग. सामान्य बीमा में निश्चित प्रकृति के जोखिम कवर किए जाते हैं।
 घ. सामान्य बीमा में जोखिम की सम्भावना समय के साथ बढ़ती जाती है।
23. निम्न में किस विधि से किसी व्यक्ति के बीमे की पर्याप्तता मापी जाती है?
 क. मानव आर्थिक मूल्य
 ख. जीवन अवधि मिश्रण
ग. मानव जीवन मूल्य
 घ. भविष्य जीवन मूल्य
24. कम आयु के व्यक्तियों से अधिक आयु के व्यक्तियों की तुलना में कम प्रीमियम लिया जाता है इसे निम्न में से किस आधार पर तर्कसंगत कहा जाता है?
 क. कम आयु के अधिकांश व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं होते हैं।
 ख. अधिक आयु के व्यक्ति अधिक प्रीमियम देने में सक्षम होते हैं।
ग. मर्त्यता दर आयु के साथ बढ़ती जाती है।
 घ. मर्त्यता दर आयु के साथ घटती जाती है।
25. बचत तत्व वाले बीमों में निम्न में से कौन सा लाभ नहीं है?
 क. सुरक्षित निवेश
 ख. बचत अनुशासन के अनुसार होती है।
ग. कम प्रतिफल
 घ. आयकर अनुलाभ
26. बचत तत्व युक्त बीमा संविदाओं में निम्न में से क्या विशेषता होती है?
 क. मुद्रा स्फीति के अनुरूप प्रतिफल में कमी आती है।
 ख. प्रारम्भ के समय में कम संचय राशि
ग. कम प्रतिफल
 घ. सुरक्षित निवेश
27. निम्न में से कौन दबाव का एक उदाहरण है?
 क. रमेश एक संविदा पर हस्ताक्षर करता है जबकि इसकी बारीकियों से व अनभिज्ञ है।
ख. रमेश महेश को मारने की धमकी देता है यदि वह संविदा पर हस्ताक्षर नहीं करता है।
 ग. रमेश अपने व्यावसायिक कौशल के द्वारा महेश के हस्ताक्षर प्राप्त कर लेता है।
 घ. रमेश महेश के हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए गलत सूचनाओं का सहारा लेता है।
28. रमेश निम्न में से किसका बीमा नहीं करवा सकता है?
 क. रमेश का मकान
 ख. रमेश की पत्नी
ग. रमेश का मित्र
 घ. रमेश के माता-पिता
29. कौन सा तत्व वैध संविदा के प्रीमियम से सम्बन्धित है?
 क. प्रस्ताव एवं स्वीकृति
ख. प्रतिफल
 ग. मुक्त
 घ. निष्पादन की क्षमता
30.गलत तथ्य से सम्बन्धित हैं, जो किसी धोखाधड़ी की नियति से नहीं कहे गए होते हैं।
 क. गलत प्रदर्शन
 ख. योगदान
 ग. प्रस्ताव
घ. प्रदर्शन
31.से आशय आपराधिक कृत्यों द्वारा दबाव डालना है
 क. धोखाधड़ी
 ख. अनावश्यक प्रभाव
ग. दबाव बल प्रयोग
 घ. गलती
32. जीवन बीमा के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
 क. ये मौखिक अनुबन्ध है जो कि विधि द्वारा लागू नहीं कराये जा सकते हैं।
 ख. ये मौखिक अनुबन्ध है परन्तु विधि द्वारा लागू कराया जा सकते हैं।
ग. ये भारतीय अनुबन्ध अधिनियम 1872 के अन्तर्गत आते हैं जोकि दो पक्षों के मध्य लागू होते हैं।
- घ. ये सट्टा/जुआ अनुबन्ध है।
33. निम्न में से कौन वैध संविदा के लिए आवश्यक नहीं है?
 क. धन
 ख. सम्पत्ति
ग. घूस
 घ. अभूषण
34. निम्न में से कौन वैध संविदा नहीं कर सकता है?
 क. व्यवसायी
ख. अवयस्क
 ग. गृहणी
 घ. सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी
35. निम्न में से कौन परम सद्भाव के सिद्धान्त को दर्शाता है?
 क. प्रस्ताव पत्र में अपनी बीमारी के सम्बन्ध में गलत तथ्य देना
 ख. सारभूत तथ्यों को छिपाना
ग. सारभूत तथ्यों का प्रदर्शन
 घ. समय पर प्रीमियम का भुगतान
36. बीमायोग्य हित के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है?
 क. पिता द्वारा पुत्र का बीमा कराया जाना
 ख. जीवन साथी द्वारा एक दूसरे के जीवन पर बीमा
ग. मित्र द्वारा दूसरे मित्र के जीवन पर बीमा
 घ. नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के जीवन पर बीमा
37. जीवन बीमा के सम्बन्ध में निम्न में से कब बीमायोग्य हित की उपस्थिति देखी जाती है?
क. बीमा लेते समय
 ख. दावा भुगतान के समय
 ग. जीवन बीमा हेतु बीमायोग्यहित आवश्यक नहीं है।
 घ. या तो पालिसी लेते समय या दावा भुगतान के समय
38. निम्न परिदृश्य में मृत्यु का आसन्न कारण क्या है?
 घोड़े से गिरने के कारण अजय की पीठ टूट जाती है। जल में पड़े रहने के कारण उसे न्यूमोनिया हो जाता है उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है परन्तु वहां उसकी मृत्यु हो जाती है।
 क. न्यूमोनिया
 ख. टूटी हुई पीठ
ग. घोड़े से गिरना
 घ. शल्य चिकित्सा
39. भविष्य की अनिश्चित घटनाओं से निपटने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनेंगे?
क. बीमा
 ख. बैंक संचयी जमा
 ग. शेयर
 घ. डिबेंचर
40. वित्तीय नियोजन की शुरुआत करने के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है?
 क. सेवा निवृत्ति के पश्चात्
ख. प्रथम वेतन मिलने के साथ ही
 ग. विवाह के पश्चात्
 घ. जब धनवान हो जायं तब
41. निम्न में से क्या कराधान नियोजन का उद्देश्य नहीं है?
 क. अधिकतम कर लाभ प्राप्त करना
 ख. उचित निवेश के माध्यम से कर बचत
ग. कर चोरी
 घ. कर सम्बन्धी नियमों का पूर्ण लाभ
42. यदि किसी व्यक्ति की निवेश जोखिम प्रोफाइल आक्रामक है तो वह निवेश का कौन सा विकल्प चुनेगा?
 क. सुदृढ़ीकरण
 ख. उपहार
ग. संचय
 घ. व्यय
43. निम्न में से कौन समृद्धि संचय का उत्पाद है?

- ग. इस पॉलिसी में नकद मूल्य खाता होता है।
घ. इस पॉलिसी में न्यूनतम मृत्यु गारण्टी लाभ होता है।
65. परम्परागत जीवन बीमा योजना की सीमा निम्न में से कौन सा तथ्य निर्धारित करता है?
क. इन बीमा योजनाओं में प्रतिफल उच्च होता है।
ख. समर्पण मूल्य की गणना स्पष्ट व पारदर्शी होती है।
ग. जोखिम व बचत तत्व पूर्णतया स्पष्ट होते हैं
- घ. प्रतिफल की दर का आकलन आसान नहीं होता है।**
66. यूनिवर्सल जीवन बीमा पॉलिसी सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत की गई थी?
क. अमेरिका
ख. ब्रिटेन
ग. जर्मनी
घ. फ्रांस
67. कौन सा वर्ग वैरियेबल जीवन बीमा को सर्वाधिक पसन्द करेगा?
क. ऐसे लोग जो निश्चित आय चाहते हैं।
ख. ऐसे लोग जो निवेश जोखिम वहन करने के विरुद्ध हैं व शेयर आदि में रूचि नहीं रखते हैं।
- ग. शेयर बाजार के जानकार लोग**
घ. सामान्यतया युवा वर्ग
68. यूलिप बीमा योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है?
क. यूनिट का मूल्य प्रारम्भ में ही एक सूत्र के आधार पर तय हो जाता है।
ख. निवेश जोखिम बीमाकर्ता द्वारा वहन किया जाता है।
- ग. शर्त/नियम/व्यय बचत तत्व आदि मानकों पर यूलिप योजनायें पारदर्शी होती हैं।**
घ. यूलिप योजनायें एक बण्डल के रूप में होती हैं।
69. निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी विशेषतायें एक वैरियेबल जीवन बीमा योजना में होती हैं?
क. प्रीमियम भुगतान में लोचनीयता
ख. नकद मूल्य गारण्टीकृत नहीं होता है
ग. बीमा धारक स्वयं चयन करता है कि उसकी बचत को कहां निवेश किया जाय
घ. न्यूनतम मृत्यु लाभ गारण्टीकृत होते हैं।
70. यूलिप के सन्दर्भ में निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी कथन सत्य हैं?
क. ग्राहक के पास विभिन्न फण्ड में से चयन का विकल्प रहता है।
ख. बीमाकर्ता यूनिट मूल्य के सम्बन्ध में गारण्टी प्रदान करता है।
ग. यूलिप पॉलिसी हम एकल प्रीमियम अथवा नियमित भुगतान प्रीमियम के माध्यम से ले सकते हैं।
घ. बीमाकर्ता के व्यय को अगर देखें तो यूलिप योजनाएं अन्य की तुलना में अधिक पारदर्शी होती हैं।
71. आई आर डी ए के मानदण्डों के अनुसार, कोई कम्पनी गैर परम्परागत योजनाओं की श्रेणी में किस(न) बीमा योजना(ओं) का विपणन कर सकती है?
1. यूनिट लिंकड इंश्योरेंस प्लान
2. वैरियेबल इंश्योरेंस प्लान
क. केवल 1
ख. केवल 2
- ग. 1 व 2 दोनों**
घ. न ही 1 और न ही 2
72. निम्न में से कौन सार्वजनिक पेंशन प्रदान करता है?
क. सरकार
ख. नियोक्ता
ग. बीमाकर्ता
घ. गैर सरकारी संगठन एन जी ओ
73. निश्चित हितलाभ वार्षिकी में निवेश जोखिम कौन वहन करता है?
क. बीमाकर्ता
ख. बीमित
ग. सरकार
घ. जोखिम पूल
74. निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
क. प्रत्येक पेंशन योजना एक वार्षिकी योजना होती है।
ख. प्रत्येक वार्षिकी योजना एक पेंशन योजना होती है।
ग. क सही है व ख गलत है।
- घ. क गलत है और ख सही है।
75. निम्न में से कौन सा जोखिम एक पेंशन योजना के माध्यम से कवर नहीं किया जा सकता है?
क. लम्बी आयु
ख. मुद्रा स्फीति
ग. निवेश जोखिम
- घ. शीघ्र मृत्यु**
76. वार्षिकी के सन्दर्भ में तरलता/नगदीकरण अवधि से क्या तात्पर्य है?
क. वार्षिकी क्रय करने की तिथि व भुगतान प्राप्त होने की तिथि के मध्य की अवधि
ख. वह अवधि जिस दौरान बीमाकर्ता वार्षिकी भुगतान करता है।
ग. पेंशन फण्ड तैयार होने में लगी अवधि
घ. गैर शोधन अवधि
77. वार्षिकी भुगतान की राशि निम्न में से किसपर निर्भर होती है?
1. धन की मूल राशि
2. निवेश की अवधि
3. ब्याज(प्रतिफल की दर)
4. वार्षिकी भुगतान की अवधि
क. 1 और 2
ख. 1, 2 और 3
ग. 1, 3 और 4
- घ. 1, 2, 3 और 4**
78. वार्षिकी भुगतान की देय राशि निम्न में से किसके विपरीत चलती है?
1. धन की मूल राशि
2. निवेश की अवधि
3. ब्याज दर(प्रतिफल)
4. वार्षिकी भुगतान की अवधि
क. केवल 1
ख. केवल 2
ग. केवल 3
घ. केवल 4
79. पेंशन योजना के साथ निम्न में से कौन सी आकस्मिकता जुड़ी रहती है?
क. मर्यता
ख. लम्बी आयु की प्रत्याशा
ग. सेवा नवृत्ति पश्चात आय सुरक्षा
घ. अपंगता
80. साधारण वार्षिकी को निम्न में से किसके द्वारा सर्वाधिक अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है?
क. सदैव के लिए समान समय अंतराल पर समान नकद प्रवाह
ख. विशिष्ट अवधि के दौरान समान समय अंतराल पर समान नकद प्रवाह
ग. समान समय अंतराल पर एकमुश्त नकद प्रवाह
घ. विशिष्ट अवधि के दौरान समान समय अंतराल पर एकमुश्त नकद प्रवाह
81. निम्न में से किस विकल्प को एक वार्षिकी के अन्तर्गत परिभाषित नहीं किया जा सकता है?
क. ₹ 2000/- की आज प्राप्त राशि, ₹2000/- की अगले वर्ष व ₹ 2000/- की उसके अगले वर्ष प्राप्ति
ख. विद्युत बिल
ग. कार सम्बन्धी भुगतान
घ. बन्धक भुगतान
82. सामान्य वार्षिकी में भुगतान अवधि के.....में प्राप्त किये जाते हैं।
क. प्रारम्भ में
ख. अन्त में
ग. परिपक्वता पर
घ. समाप्ति के 6 माह पूर्व
83.सरकारी नियंत्रण वाली पेंशन कहलाती है
क. बीमा पेंशन फण्ड
ख. सार्वजनिक पेंशन फण्ड (PPF)
ग. निजी पेंशन फण्ड
घ. बाजार आधारित पेंशन फण्ड
84. स्वास्थ्य बीमा निम्न में से किस प्रकार के जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है?

- क. जीवन बीमा
ख. अपंगता बीमा
ग. बन्धक विमोचन बीमा
घ. सामान्य बीमा
105. बीमा पालिसी के व्यपगत होने से क्या आशय है?
क. पालिसीधारक पालिसी के सारे प्रीमियम जमा करता है।
ख. पालिसीधारक पालिसी प्रीमियम का भुगतान बीच में ही रोक देता है।
ग. पालिसी में परिपक्वता
घ. पॉलिसी का बाजार से हटा लिया जाना
106. यूलिप के अन्तर्गत निवेश का जोखिम कौन वहन करता है?
क. बीमाकर्ता
ख. बीमित
ग. सरकार
घ. आई आर डी ए
107. बीमा पॉलिसी में प्रीमियम शब्द से तात्पर्य है
क. बीमा कम्पनी द्वारा अर्जित लाभ
ख. बीमित द्वारा जोखिम कवर हेतु भुगतान किया गया मूल्य
ग. किसी पॉलिसी में बीमाकर्ता का लाभ
घ. बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी में किये गये व्यय
108. जीवन बीमा प्रीमियम निर्धारण में निम्न में कौन एक कारण नहीं है?
क. मर्त्यता
ख. छूट
ग. प्रावधान(संचय/रिज़र्व)
घ. प्रबन्धन के व्यय
109. बीमा में निकासी (विद्वाल)से क्या तात्पर्य है?
क. पालिसीधारक द्वारा प्रीमियम भुगतान रोकना जाना
ख. पालिसी का समर्पण
ग. पालिसी उच्चोत्तरण
घ. पालिसी निम्नीकरण
110. बीमा में आधिक्य(अधिशेष/सरप्लस) की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है?
क. अत्यधिक देनदारियां
ख. अत्यधिक टर्नओवर(व्यवसाय)
ग. सम्पत्तियों के ऊपर देनदारियों का आधिक्य
घ. देनदारियों के ऊपर सम्पत्तियों का आधिक्य
111. यूलिप प्रीमियम निर्धारण में कौन सा एक घटक नहीं है?
क. पालिसी एलोकेशन चार्ज
ख. निवेश जोखिम प्रीमियम
ग. मर्त्यता शुल्क
घ. सामाजिक सुरक्षा शुल्क
112. जीवन बीमा कम्पनियों में निम्न आधार पर प्रीमियम में छूट प्रदान की जाती है
क. बीमाधारक द्वारा चयन किये गये बीमाधन पर
ख. बीमाधारक द्वारा चयन की गई योजना
ग. प्रीमियम भुगतान के माध्यम के आधार पर(नकद/चेक/कार्ड)
घ. बीमाधारक द्वारा चयन किये गये पालिसी के प्रकार पर
113. प्रीमियम निर्धारण में ब्याज एक प्रमुख घटक होता है, इस सन्दर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
क. ब्याज दर कम मानने पर प्रीमियम दर घट जाती है।
ख. ब्याज दर उच्च मानने पर प्रीमियम दर बढ़ जाती है।
ग. ब्याज दर उच्च मानने पर प्रीमियम दर कम हो जाती है।
घ. ब्याज दर का प्रीमियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
114. निम्न में से कौन सा बोनस बीमाधन व पूर्व में घोषित किये गये बोनस के योग पर दिया जाता है?
क. प्रत्यावर्ती बोनस
ख. मिश्रित बोनस (Compound Bonus)
ग. अन्तिम बोनस
घ. निरन्तरता बोनस
115.अवधि के दौरान पालिसीधारक, यदि अपनी पॉलिसी/पॉलिसी शर्तों से सन्तुष्ट नहीं है तो वह अपनी पॉलिसी को रद्द करवा सकता है।
क. मुक्त मूल्यांकन
ख. उपशमन(मुफ्त लुक-इन)
ग. निरस्तीकरण
घ. मुफ्त परीक्षण
116. निम्न में से कौन एक मानक आयु प्रमाण पत्र है?
क. राशन कार्ड
ख. जन्म कुण्डली
ग. पासपोर्ट
घ. ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र
117. निम्न में से क्या नैतिक जोखिम का संकेतक है?
क. बीमा लेने के पश्चात अधिक जोखिम लेने की तत्परता
ख. बीमा लेने से पहले अधिक जोखिम लेने की तत्परता
ग. बीमा लेने के पश्चात जोखिम लेने की तत्परता
घ. बीमा कवर लेने के पश्चात आपराधिक कृत्य में शामिल होना
118. चिकित्सकीय परीक्षण में निम्न में से कौन से लक्षण देखे जाते हैं?
क. प्रस्तावक का भावनात्मक व्यवहार
ख. ऊंचाई, वजन व रक्तचाप
ग. सामाजिक स्तर
घ. ईमानदारी
119.एक औपचारिक व वैधानिक प्रपत्र है जोकि बीमा कम्पनियों उत्पाद सम्बन्धी विवरण देने में उपयोग करती है।
क. प्रस्ताव पत्र
ख. प्रस्ताव कोटेशन
ग. सूचना डॉकमेंट
घ. प्रारूपवटस
120. बीमा हेतु आवेदन करन के लिए प्रयुक्त आवेदन पत्र कहलाता है-
क. प्रस्ताव पत्र
ख. पंजीकरण फॉर्म
ग. आवेदन पत्र
घ. सदस्यता फॉर्म
121. निम्न में से कौन सा आयु प्रमाण अमानक की श्रेणी में आता है?
क. स्कूल प्रमाण
ख. सेना का परिचय पत्र
ग. राशन कार्ड
घ. बैटिज्म का प्रमाण
122. मनी लाण्ड्रिंग प्रक्रिया के माध्यम से.....धन को निवेश करके उसे.....धन में परिवर्तित कर लिया जाता है।
क. अवैध, अवैध
ख. अवैध, वैध
ग. वैध, वैध
घ. वैध, अवैध
123. यदि कोई पालिसीधारक अपनी पॉलिसी से सन्तुष्ट नहीं है तो वह पालिसी बाण्ड मिलने केदिनों के अन्दर अपनी पॉलिसी रद्द करवाकर प्रीमियम वापस ले सकता है।
क. 60
ख. 45
ग. 30
घ. 15
124. कूलिंग ऑफ पीरियड के माध्यम से रद्द हुई पॉलिसी में पॉलिसीधारक को निम्न राशि वापस की जाती है।
क. प्रीमियम का 100 प्रतिशत
ख. प्रीमियम का 50 प्रतिशत
ग. प्रीमियम राशि में से पॉलिसी बनाने का खर्च व उस अवधि की जोखिम प्रीमियम राशि काटकर शेष प्रीमियम वापस कर दिया जाता है।
घ. सम्पूर्ण प्रीमियम राशि जब्त कर ली जाती है।
125. निम्न में से कौन एक मान्य पते का प्रमाण पत्र नहीं है?

144. बीमाकर्ता निम्न में से कौन से परिवर्तन की अनुमति दे सकता है?
क. पॉलिसी को दो या अधिक पालिसियों में विभाजन
 ख. प्रीमियम भुगतान अवधि को बढ़ाना
 ग. लाभ सहित पॉलिसी का लाभ रहित पॉलिसी में परिवर्तन
 घ. बीमाधन में वृद्धि
145. निम्न में से कौन सा प्रस्ताव बीमा कम्पनी द्वारा अस्वीकार/अस्थगित किया जा सकता है?
 क. 18 वर्षीय स्वस्थ युवा
 ख. कोई मोटापे से पीड़ित व्यक्ति
ग. एड्स पीड़ित व्यक्ति
 घ. गृहणी जिसकी स्वयं की आय न हो।
146. निम्न में से क्या नैतिक जोखिम की श्रेणी में आता है?
 क. कोई स्ट्रॉट करने वाला व्यक्ति जोकि स्ट्रॉट करते हुए मर जाये।
ख. कोई बीमाधारक इसलिए अधिक मदिरापान करने लगे कि उसने बीमा करवा रखा है।
 ग. बीमित व्यक्ति प्रीमियम भुगतान में सक्षम न हो पा रहा हो।
 घ. पॉलिसी के बारे में ग़लत तथ्य देना।
147. मेडिकल जोखिमांकन में आवश्यक पारिवारिक इतिहास में शामिल है—
 क. माता— पिता की सम्पत्ति की विरासत
ख. कुछ बीमारियां वंशानुगत होती हैं।
 ग. माता—पिता यदि ग़रीब हैं तो बच्चे कुपोषण से ग्रस्त हो सकते हैं।
 घ. पारिवारिक वातावरण एक मुख्य कारक है।
148. बीमा कम्पनी में जोखिमांकनकर्ता की क्या भूमिका है?
 क. दावा भुगतान
ख. जोखिम स्वीकार करने का निर्णय
 ग. उत्पाद डिजाइन करना
 घ. ग्राहक सम्बन्ध प्रबन्धन
149. निम्न में से क्या जोखिमांकन सम्बन्धी निर्णय है?
क. सामान्य दर पर जोखिम को स्वीकार करना
 ख. जोखिम को अस्वीकार करना
 ग. जोखिम अस्थगन
 घ. दावा निस्तारण
150. निम्न में से क्या मानक आयु प्रमाण नहीं है?
 क. पासपोर्ट
 ख. स्कूल प्रमाण पत्र
ग. जन्म कुण्डली
 घ. जन्म प्रमाण
151. निम्न में से कौन सी आदत बीमा निर्णय को प्रभावित कर सकती है?
 क. दैनिक टहलना
ख. प्रतिबन्धित द्रव्यों का प्रयोग
 ग. आलसी प्रवृत्ति
 घ. टाल मटोल
152. जोखिमांकन की किस प्रक्रिया में जोखिमांकनकर्ता ऋणात्मक कारकों(तथ्यों के लिए अंक प्रदान करती हैं)?
 क. जजमेण्ट जोखिम
 ख. स्वच्छन्द
ग. आंकिक पद्धति
 घ. एकमात्र निर्णय
153. जोखिम वर्गीकरण में.....समूह उस जोखिम समूह से सम्बन्धित है जिनकी मर्त्यता दर मानक मर्त्यता दर सारिणी के अनुसार होती है।
क. मानक जीवन
 ख. वरीयता जीवन
 ग. अमानक जीवन
 घ. अस्वीकृत जीवन
154. कोई महिला गर्भवती है और अपना अवधि बीमा कराना चाहती है, जोखिमांकनकर्ता के लिए कौन सा निर्णय सर्वाधिक उपयुक्त होगा?
 क. सामान्य दर पर स्वीकृति
 ख. अतिरिक्त प्रीमियम के साथ स्वीकृति
 ग. प्रस्ताव अस्वीकृति
- घ. प्रतिबन्धित उपबन्ध के साथ स्वीकृति**
155. निम्न में से कौन सा प्रस्ताव गैर मेडिकल जोखिमांकन के अन्तर्गत स्वीकार नहीं किया जायेगा?
 क. सविता, 26 वर्ष आयु, एक आई टी कम्पनी में इंजीनियर
ख. महेश, 50 वर्ष आयु, कोयले की खदान में मजदूर
 ग. सतीश, 28 वर्ष आयु, एक बैंक कर्मी जिसने 1 करोड़ की राशि के लिए आवेदन किया है।
 घ. प्रवीण, 30 वर्ष आयु, एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करने वाला, 10 वर्ष के बन्दोबस्ती बीमा हेतु प्रस्ताव किया है।
156. शीना गम्भीर मधुमेह से ग्रस्त है, परन्तु वह बीमा करवाना चाहती है। जोखिमांकनकर्ता जोखिमांकन की कौन सी पद्धति का प्रयोग करेगा?
क. जजमेण्ट पद्धति
 ख. आंकिक पद्धति
 ग. उक्त में से कोई भी क्योंकि मधुमेह जैसी बीमारियां जोखिमांकन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होती हैं।
 घ. उपरोक्त में से कोई भी क्योंकि मधुमेह रोगी का बीमा नहीं किया जा सकता है।
157. संतोष एक अवधि/मीयादी बीमा कराना चाहता है, उसकी अनुमानित मर्त्यता मानक मर्त्यता दर से काफी कम है इसलिए उससे कम प्रीमियम लिया जा सकता है। जोखिम वर्गीकरण के अन्तर्गत संतोष को.....के तहत वर्गीकृत किया जायेगा।
 क. मानक जीवन
ख. वरीयता जोखिम
 ग. गैर मानक जीवन
 घ. अस्वीकृत जीवन
158. निम्न में से कौन सा कथन दावा की व्याख्या सर्वाधिक अच्छे ढंग से करता है?
 क. दावा एक अनुरोध है जिसे बीमा कम्पनी का अपनी सविदा के वादे के अनुरूप निमाना चाहिए।
ख. दावा एक मांग है जिसके द्वारा बीमाकर्ता सविदा में किये गये अपने वादे को निभाता है।
 ग. दावा एक अनुरोध है जोकि एक बीमित बीमा सविदा के वादों को निभाता है।
 घ. दावा एक मांग है जोकि बीमित करार के अन्तर्गत अपने वचन को निभाता है।
159. निम्न में से कौन से प्रकार की पॉलिसी में दावा भुगतान पॉलिसी अवधि के दौरान एक नियमित अन्तराल के दौरान किया जाता है?
क. धन वापसी योजना
 ख. यूलिप योजना
 ग. प्रीमियम की वापसी सहित अवधि बीमा योजना
 घ. अवधि बीमा योजना
160. महेश ने एक बीमा पॉलिसी गम्भीर बीमारी सम्पूरक/आरोहक के साथ खरीदी है, उसने पॉलिसी का करण के पक्ष में पूर्ण समनुदेशन कर दिया है। महेश को दिल का दौरा पड़ता है और गम्भीर बीमारी आरोहक के तहत रु 50,000 का दावा उत्पन्न होता है। दावे का भुगतान किसे किया जायेगा?
 क. महेश
ख. करण
 ग. महेश व करण दोनों को बराबर
 घ. किसी को भी नहीं क्योंकि पॉलिसी समनुदेशित है और बीमारी महेश को हैं।
161. प्रवीण 1 की कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना दावा प्राप्त करने के लिए दावेदार को कौन सी अतिरिक्त औपचारिकता पूरी करनी पड़ेगी?
 क. दाह संस्कार का प्रमाण
 ख. चिकित्सक की रिपोर्ट
 ग. नियोक्ता का प्रमाण पत्र
घ. तहकीकात/जांच रिपोर्ट
162. निम्न में से किसे शीघ्र मृत्यु दावे के अन्तर्गत माना जायेगा?
क. पॉलिसी लेने के 3 वर्ष के भीतर पॉलिसीधारक की मृत्यु
 ख. पॉलिसी लेने के 5 वर्ष के अन्दर पॉलिसीधारक की मृत्यु
 ग. पॉलिसी लेने के 7 वर्ष के अन्दर पॉलिसीधारक की मृत्यु
 घ. पॉलिसी लेने के 10 वर्ष के अन्दर पॉलिसीधारक की मृत्यु
163. नीचे कुछ ऐसी घटनाएं दी गई हैं जिनमें उत्तरजीविता दावे उत्पन्न होंगे, इस सन्दर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?
क. मीयादी/अवधि बीमा में अवधि के अन्त में परिपक्वता दावों का भुगतान
 ख. धनवापसी योजना में पालिसी अवधि में नियमित अन्तराल पर भुगतान दिया जाता है।

- ग. समानता
घ. विश्वसनीयता
184. बीमा अभिकर्ता सामान्यतया निम्न में से किसका प्रतिनिधि माना जाता है?
क. ग्राहक
ख. बीमाकर्ता
ग. सरकार
घ. आई आर डी ए
185. प्रत्यक्ष विपणन में निम्न में से क्या आता है?
क. टेली मार्केटिंग
ख. बीमा अभिकर्ता
ग. बैकार्योरेंस
घ. उपरोक्त सभी
186. "दूसरों को कष्ट न दो जिससे आपको कष्ट होता हो" नैतिकता का यह सूत्र वाक्य निम्न में से किस धर्म का है?
क. बौद्ध
ख. ईसाई
ग. हिन्दू
घ. यहूदी
187. बीमा अभिकर्ता को जारी लाईसेंस/अनुज्ञप्तिवर्ष तक वैध रहता है।
क. 1
ख. 2
ग. 3
घ. 5
188. भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 182 के अनुसार एक व्यक्ति जो किसी एक पक्ष का प्रतिनिधित्व दूसरे के साथ व्यवहार करने के लिए करता है, कहलाता है—
क. प्रधान अधिकारी
ख. प्रॉक्सी
ग. विचौलिया
घ. अभिकर्ता
189. एक बीमा दलाल.....का प्रतिनिधित्व करता है।
क. बीमा कम्पनी
ख. बीमित
ग. बीमा कम्पनियों का संघ
घ. बीमा धारकों का समुदाय
190. समग्र लाईसेंस(कम्पोजिट लाईसेंस) के नवीनीकरण के लिए.....घण्टे का प्रशिक्षण मान्यता प्राप्त संस्थान से होना आवश्यक है।
क. 25
ख. 50
ग. 35
घ. 75
191. आई आर डी ए ने अक्षुण्णता सम्बन्धी दिशानिर्देश से लागू करने का निर्णय लिया है।
क. 01/07/2011
ख. 01/07/2012
ग. 01/07/2043
घ. 01/07/2014
192. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रशस्त पत्र की श्रेणी में आता है?
क. सन्तुष्ट ग्राहक द्वारा दिया गया प्रशंसा पत्र
ख. उत्पाद के परीक्षण में नकला परिणाम
ग. किसी उत्पाद द्वारा पास किये जाने वाले परीक्षण की सूची
घ. किसी उत्पाद को परीक्षण हेतु आवश्यक राशि
193. सम्भावित ग्राहक को विक्रय को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए.....कहना चाहिए।
क. नहीं
ख. जानते नहीं
ग. हाँ
घ. सम्भव है।
194. निम्न में से क्या विक्रय प्रक्रिया का अंग नहीं है?
क. सम्भावित ग्राहकों की सूची बनाना
ख. विक्रय साक्षात्कार
ग. हानि मूल्यांकन
घ. समापन
195. बीमा विक्रय में सम्भावित लोगों की सूची बनाना है.....
क. उन लोगों की सूची बनाना जोकि बीमा करवाने में रुचि रखते हैं।
ख. नगर में निवास करने वालों की सूची
ग. समस्त पॉलिसीधारकों की सूची
घ. समस्त अभिकर्ताओं की सूची
196. बीमा व्यवसाय में आवश्यकता पर्याप्तता विश्लेषण कहलाता है—
क. ऐसे क्षेत्रों की पहचान जहां सम्भावित लोग बीमा प्रतिरक्षण चाहते हैं।
ख. बीमा अभिकर्ता बनने के लिए लोगों की पहचान
ग. सम्भावित व्यक्तियों की सम्पदा की पहचान
घ. सम्भावित लोगों की निर्धनता की पहचान
197. शीत वार्तालाप कहलाता है—
क. ग्राहकों से शीत ऋतु में मिलना
ख. ग्राहकों से जब जुकाम हो उस समय मिलना
ग. लोगों से यकायक मिलना
घ. ग्राहकों से आग बुझने के बाद मिलना
198. कोई वाणिज्यिक लेन देन जिसमें उत्पाद या सेवा के बदले आर्थिक अनुलाभ प्राप्त होते हैं, कहलाता है—
क. विपणन
ख. विक्रय
ग. विज्ञापन
घ. संबद्धता
199. निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
क. विक्रय एक कला है, विज्ञान नहीं
ख. विक्रय एक विज्ञान है, कला नहीं
ग. विक्रय न तो कला है, न ही विज्ञान
घ. विक्रय कला और विज्ञान दोनों है।
200. स्वजातीय/समुदाय के लोगों की ओर उन्मुख होकर बीमा हेतु सम्भावित सूची बनाना निम्न में से कौन से वर्ग में आता है?
क. निकटतम समूह
ख. प्राकृतिक बाजार
ग. प्रभाव केन्द्र
घ. परिचय व सन्दर्भ
201. योग्य सम्भावित के सन्दर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?
क. ऐसा व्यक्ति जो बीमा प्रीमियम देने में सक्षम हों।
ख. ऐसे लोग जिनसे बीमा के लिए पहले सम्पर्क किया जा सकता है।
ग. ऐसे लोग जिनकी शैक्षिक योग्यता बीमा के लिए पर्याप्त हो।
घ. ऐसे लोग जो बीमा हेतु कम्पनी की जोखिमार्कन प्रक्रिया में खरे उतरें
202. ग्राहक का जीवन पर्यन्त मूल्य निम्न में से कौन सा है?
क. ग्राहक की सेवा के कारण उस पर किये जाने वाले जीवन भर की लागत
ख. ग्राहक से व्यवसाय प्राप्ति के अनुसार उसकी रैक
ग. ग्राहक से दीर्घकालिक सम्बन्ध बनाने से पर्याप्त आर्थिक मूल्य का योग
घ. किसी ग्राहक को अधिकतम बीमा कवर की सीमा
203. बीमा कम्पनी से अपेक्षित सेवा न मिल पाने के कारण ग्राहक के मन में दो तरह के विचार आते हैं, ये हैं—
क. सन्देह व संवेदनशीलता
ख. बदला व बेईमानी
ग. उपेक्षा व दया
घ. अहम् को ठेस व अनुचित व्यवहार की भावना
204. निम्न में से क्या क्रियाशील श्रवण में नहीं आता है?
क. पूरी तरह से ध्यान देना
ख. पहले से धारणा बना लेना
ग. संवेदनशील श्रवण
घ. उचित प्रकार से जवाब देना